

प्रेस नोट दिनांक 20-06-2022

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस की शातिर गौतस्करो से मुठभेड में आरक्षी उत्तम राठी घायल, जवाबी फायरिंग में 01 शातिर गौतस्कर घायल/गिरफ्तार, मौके से अवैध असलहा/कारतूस, गौकशी के उपकरण, 01 जिन्दा गौवंश व 01 स्कूटी बरामद:-

अवगत कराना है कि दिनांक 20/06/2022 को गागलहेडी पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम चौरा खुर्द के पास गन्ने के खेत में शमशाद नाम का कुख्यात गौकश अपने एक साथी के साथ गौकशी करने जा रहा है। इस सूचना को उच्चाधिकारीगणों को बताते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गागलहेडी श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा ग्राम चौरा खुर्द के जंगल में बताये गये खेत के पास घेराबन्दी की गयी। पुलिस को देखते ही शमशाद और उसके साथी ने पुलिस पार्टी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे। गौतस्करो द्वारा चलाई गयी गोली से आरक्षी उत्तम राठी घायल हो गया। पुलिस पार्टी द्वारा गौतस्करो द्वारा की गयी फायरिंग का मुँहतोड़ जवाब दिया गया और आत्मरक्षार्थ फायर किये गये। पुलिस व गौतस्करो के बीच हुई फायरिंग में गौतस्कर शमशाद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम हरोडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर घायल हो गया तथा उसका एक अन्य साथी मौके से भाग गया। भागे हुए गौतस्कर की तलाश हेतु पुलिस पार्टी द्वारा गन्ने के खेत में कॉम्बिंग की जा रही है। मुठभेड के दौरान गोली लगने से घायल हुए गौतस्कर शमशाद व आरक्षी उत्तम राठी को ईलाज हेतु तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस, रस्सी से बंधा हुआ 01 जिन्दा गौवंश, गौकशी के उपकरण तथा 01 एक्टिवा स्कूटी नं० UP11BZ-6816 बरामद हुई है। घायल/गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध गौकशी, पशु क्रूरता, गैंगस्टर, हत्या आदि के करीब एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- शमशाद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम हरोडा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1- 01 तमंचा 315 बोर, 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 2- रस्सी से बंधा हुआ 01 जिन्दा गौवंश
- 3- गौकशी के उपकरण
- 4- 01 एक्टिवा स्कूटी

अभियुक्त शहजाद का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 40/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 2- मु0असं0 42/21 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 43/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 79/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 5- मु0असं0 202/19 धारा 307 भादवि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 6- म0अ0सं0 203/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 7- मु0अ0सं0 345/17 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 व 11/3 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 8- मु0अ0सं0 430/19 धारा 5/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 9- मु0अ0सं0 400/21 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 व 11/3 पशु क्रूरता अधि0 थाना नई मण्डी मु0नगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-श्री सुबे सिंह, थानाध्यक्ष गागलहेडी, सहारनपुर	5-का0 विनीत कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर
2-उ0नि0 कृष्ण सांगवान थाना गागलहेडी, सहारनपुर	6-का0 अनुज कुमार थाना गागलहेडी, सहारनपुर
3-उ0नि0 राहुल देशवाल थाना गागलहेडी, सहारनपुर	7-का0 मोहित यादव थाना गागलहेडी, सहारनपुर
4-है0का0 उत्तम राठी थाना गागलहेडी, सहारनपुर	

इस साहसिक मुठभेड और शातिर गौकश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टिम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा 25 हजार रुपये का नकद ईनाम दिया गया है।

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2022

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस ने 01 किलो नाजायज चरस सहित

01 अभियुक्त किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री मनोज कुमार चाहल को0 देहात स0पुर के नेतृत्व में चलाये जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी के अभियान में उ0नि0 मेहर सिंह मय फोर्स द्वारा रामनगर चौराहे के पास से ढमौला नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान अभि0 सनोव्वर उर्फ खली पुत्र नाजिम नि0 पिजौरा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर के कब्जे से 01 किलो नाजायज चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी / बरामदगी के आधार पर थाना को0 देहात पर मु0अ0स0 277/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभि0 को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर अभिरक्षा में जिला कारागार में भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-सनोव्वर उर्फ खली पुत्र नाजिम नि0 पिजौरा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0स0 277/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-01 किलो नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.थानाध्यक्ष श्री मनोज कुमार चाहल थाना को0देहात, स0पुर।

2.उ0नि0 मेहर सिंह थाना को0 देहात स0पुर।

3.एचसी 40 मेजर थाना को0 देहात स0पुर।

4.का0 200 हरिओम थाना को0 देहात स0पुर।

5.का0 427 पंकज थाना को0 देहात स0पुर।

6.का0 75 विवेक कुमार थाना को0 देहात स0पुर।

प्रेस नोट दिनांक 20.06.2022

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, गत्ता, 1770/- रूपये व 01 मोबाइल बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधो की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्त गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री देशराज सिंह थाना नागल के कुशल नेतृत्व मे थाना नागल पुलिस द्वारा दिनाँक 19.06.2022 को मुखबिर की सूचना पर ब्लाक तिराहे से अभियुक्त सन्दीप पुत्र मामचन्द निवासी कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से 01 सट्टा पर्चा, गत्ता, 01 पैन्सिल व 1770/- रूपये तथा एक मोबाइल कीपेड लावा कम्पनी का बरामद हुआ। बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 133/22 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम व पता:-

1-सन्दीप पुत्र मामचन्द निवासी कस्बा व थाना नांगल जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1-01 सट्टा पर्चा, गत्ता, 01 पैन्सिल

2- 1770/- रूपये

3- 01 मोबाइल कीपेड लावा कम्पनी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री देशराज सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर।

2.उ0नि0 श्री धीरज तोमर थाना नांगल जिला सहारनपुर।

3. है0का0 586 राजीव पवार थाना नांगल जिला सहारनपुर।

4. है0का0 521 सुनील कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर।

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

01 नाजायज चाकू बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी के सफल निर्देशन में उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह द्वारा मय हमराह के सार्वजनिक शौचालय के पास ग्राम बेलडा बुजुर्ग से दिनांक 20.06.22 को समय 07.20 बजे एक अभियुक्त अखलाक पुत्र सफदर नि० ग्राम बेलडा बुजुर्ग थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभि० के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगाँव पर मु०अ०सं० 113/22 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभि० का नाम व पता:-

अखलाक पुत्र सफदर नि० ग्राम बेलडा बुजुर्ग थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहास:-

1-मु०अ०सं० 113/22 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

2-मु०अ०सं० 102/21 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1-उ०नि० प्रमोद कुमार सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

2-का० 433 सन्दीप कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 20-06-2022

थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा पारसपुरम गेट न0 5 के पास से अभि0 नासिर पुत्र नाजिम नि0 काशीराम कालोनी बी ब्लॉक थाना सदर बाजार, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0 175/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा कच्चा 62 फुटा रोड पीपल वाली मस्जिद के पास से अभि0 सुहैल पुत्र सहीद नि0 गली न0-03 खाताखेडी थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 191/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू व चोरी का मोबाइल फोन सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा कच्चा 62 फुटा रोड पीपल वाली मस्जिद के पास से अभि0 माजिद पुत्र मालिक नि0 मिद्दे वाली गली खाताखेडी थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू व चोरी का 01 मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 192/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 193/22 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 011 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा इन्द्राचौक पर रखे ट्रांसफार्मर के पास से अभि0 आमिर पुत्र खुर्शीद नि0 मटिया महल नबाबगंज चौक थाना को0नगर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 194/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 011 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा हलवाना रोड बाग के पास से अभि0 एजाज पुत्र मुस्तकीम नि0 हलवाना रोड छुटमलपुर थाना फतेहपुर, स0पुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 161/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा सर्विस रोड के पास रूडकी रोड से अभि0 सरफराज पुत्र गुलजार नि0 मुस्लिम कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर, स0पुर को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 162/22 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा नशीली गोलियां सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा रणखण्डी फाटक के पास से अभि0 1-दानिश पुत्र इरशाद नि0 मौ0 कायस्थवाडा कस्बा व थाना देवबन्द स0पुर 2-शमशाद पुत्र खुर्शीद नि0 मौ0 शाहबुखारी कस्बा व थाना देवबन्द, स0पुर को 285-285 नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0 398/22 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-06-2022 को थाना नागल पुलिस द्वारा ब्लॉक तिराहा मण्डी के पास से अभि0 प्रीतम सिंह पुत्र कंटु नि0 ब्लॉक तिराहा थाना नागल, स0पुर को 20 पक्के देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नागल पर मु0अ0सं0 132/22 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 20/06/22 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(थाना गंगोह पुलिस द्वारा 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो एवं अवैध नशे मे लिप्त अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा **अभियुक्त शारिक पुत्र शोकीन निवासी मौ0 गुलाम ओलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित ईदगाह के गेट न0 2 के पास कस्बा गंगोह स0पुर से आज दिनांक 20/06/22 को समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के जुर्म के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 315/2022 धारा 63 Ex. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शारिक पुत्र शोकीन निवासी मौ0 गुलाम ओलिया कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी-

10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.कां0 1301 विक्रान्त मान, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.कां0 1223 बाबूराम, थाना गंगोह जिला सहारनपुर